



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 22.09.2020

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा एक लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 02 मोबाईल फोन, लूटे गये मोबाईल को बेचकर शेष बचे 350/- रूपये, एक तमंचा 315, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद :

दिनांक 22.09.2020 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 लुटेरा अभियुक्त नौशाद पुत्र हसन निवासी म0न0 339 वार्ड नम्बर 11 डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को एबीसीडी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूट के दो मोबाईल फोन, लूटे गये मोबाईल को बेचकर शेष बचे 350/- रूपये, एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है ।

### **अभियुक्तो का विवरण-**

नौशाद पुत्र हसन निवासी म0न0 339 वार्ड नं. 11 डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 707/2020 धारा 411/414 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 708/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 667/2020 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 02 मोबाईल फोन लूट के

2. लूटे गये मोबाईल को बेचकर शेष बचे 350/- रूपये

3. 01 तमंचा 315, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर



**2- थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा फैक्ट्री में घुसकर चोरी कर माल को ले जाने के प्रयास के दौरान फायरिंग कर कम्पनी के कर्मचारी को गम्भीर रूप से घायल करने की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 12 बोर व एक कारतूस बरामद :**

दिनांक 21.09.2020 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा अभियुक्त आसकार पुत्र मुमताज निवासी जनपद अमरोहा वर्तमान निवासी ककराला थाना फेस 2 नोएडा को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.08.2020 को फैक्ट्री में घुसकर चोरी कर माल को ले जाने के प्रयास के दौरान फायरिंग कर कम्पनी के कर्मचारी को गम्भीर रूप से घायल करने की घटना कारित की गई थी। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 कारतूस बरामद किया गया है।

### **अभियुक्त का विवरण-**

आसकार पुत्र मुमताज निवासी मौहल्ला बगलो थाना कोतवाली नगर जनपद अमरोहा वर्तमान निवासी बराकत का मकान ग्राम ककराला थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 485/20 धारा 457/380/511/326 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 561/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 093/19 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 12 बोर व एक कारतूस ।



3-थाना दनकौर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 6 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

### बरामद :

दिनांक 21.09.2020 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अमित पुत्र चरत सिंह निवासी ग्राम अट्टा गूजरान थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को औरंगपुर चौराहा थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से 6 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है।

## अभियुक्त का विवरण-

1. अमित पुत्र चरत सिंह निवासी ग्राम अट्टा गूजरान थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

## पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 403/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0स0 432/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण -**

6 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

**4- थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 06 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत लगभग 10 हजार रूपये) बरामद :**

दिनांक 22.09.2020 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. राहिल पुत्र जाहिद निवासी ग्राम गुडलिया थाना मीरजगंज जनपद बरेली को बैंक ऑफ इंडिया झुगियों के बीच मजार के पास सेक्टर 09 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 06 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत लगभग 10 हजार) बरामद की गई है।

### **अभियुक्त का विवरण-**

1. राहिल पुत्र जाहिद निवासी गुडलिया थाना मीरजगंज जनपद बरेली।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 865/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

### **बरामदगी का विवरण-**

6 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत लगभग 10 हजार रूपये)

**5-थाना दनकौर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :**

दिनांक 22.09.2020 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 431/2020 धारा 328/376 भादवि0 व 5/6 पोक्सो अधिनियम का एक वांछित अभियुक्त विपिन शर्मा पुत्र डा0 राजकुमार शर्मा निवासी हरि नगर कालोनी मंडी श्यामनगर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को दनकौर रेलवे स्टेशन थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है।

## अभियुक्त का विवरण-

1. विपिन शर्मा पुत्र डा0 राजकुमार शर्मा निवासी हरि नगर कालोनी मंडीश्यामनगर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

## आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0स0 431/2020 धारा 328/376 भादवि0 व 5/6 पोक्सो अधिनियम थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

## प्रेस विज्ञप्ति

**कोविड-19 संक्रमित मरीज की जान बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर के आरक्षी ने प्लाज्मा डोनेट किया-**

मूलतः बिजनौर के रहने वाले श्री कुलदीप सिंह सेंचुरी पेपर मिल, लाल कुआं, नैनीताल, उत्तराखंड में मेंटिनेस इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। श्री कुलदीप सिंह उत्तराखंड में अपने कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित हो गए थे। कोरोना वायरस संक्रमण से फेफड़े व श्वसन तंत्र काफी अधिक प्रभावित हो जाने के कारण श्री कुलदीप सिंह को उत्तराखंड से बेहतर इलाज हेतु दिल्ली-एनसीआर के किसी हायर सेंटर को रेफर किया गया था।

श्री कुलदीप सिंह का कोविड-19 का इलाज 03 दिन से ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में चल रहा है। मरीज की स्थिति गंभीर होने पर कैलाश अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा मरीज के परिजनों से प्लाज्मा डोनेट की व्यवस्था करने हेतु कहा गया था।

इलाज हेतु प्लाज्मा की आवश्यकता होने की बात मरीज के परिजनों के माध्यम से श्री भुवनेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक, थाना ईकोटेक 3 के संज्ञान में आई। श्री भुवनेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक, ईकोटेक 3 द्वारा पुलिस विभाग में मरीज के ब्लड ग्रुप बी+ के प्लाज्मा डोनर की तलाश की गई तो पेशी कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल नोएडा, पुलिस कमिश्नर मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर में तैनात आरक्षी श्री श्रीकांत सिंह मरीज की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सहर्ष तैयार हो गये।

दिनांक 22 सितंबर, 2020 को आरक्षी श्री श्रीकांत सिंह ने कैलाश अस्पताल, ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज श्री कुलदीप सिंह की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया।

आरक्षी श्रीकांत सिंह के इस मानवीय कार्य की मरीज के परिजनों ने काफी प्रशंसा की और कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया।